

करेंट अफेयर्स 23 अगस्त 2017

1. हाल ही में भारत के उप-राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

भारत के उप-राष्ट्रपति के रूप में एनडीए उम्मीदवार वैकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। नायडू भैरों सिंह शेखावत के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की पृष्ठभूमि वाले दूसरे उप राष्ट्रपति हैं।

2. हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

ईरान के राष्ट्रपति के रूप में हसन रुहानी को नियुक्त किया गया है। रुहानी एक ईरानी राजनीतिज्ञ, वकील, विद्वान व कूटनीतिज्ञ हैं। रुहानी ईरान में आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। रुहानी राष्ट्रपति पद के लिए लगातार दूसरी बार चुने गए हैं।

3. “आईसीजीएस शौर्य” क्या है?

“आईसीजीएस शौर्य” एक जहाज है। इसे समुद्र में निगरानी के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। ये जहाज उन्नत दिशा सूचक और संचार उपकरणों से लैस है। यह जहाज, तलाशी और बचाव अभियान और समुद्री निगरानी के लिए दो इंजन वाला छोटा हेलिकॉप्टर और पांच तेज गति वाली नाव ले जा सकता है। इसमें समुद्र में तेल बिखराव की समस्या से निपटने की खूबी है। हाल ही में इसे गोवा के वास्को में भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया है।

4. अशोक वाजपेयी कौन हैं?

अशोक वाजपेयी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। हाल ही में वाजपेयी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता एवं विधान परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। वाजपेयी एमएलसी की सदस्यता छोड़ने वाले सपा के चौथे नेता हैं। इससे पहले सपा के नेता बुक्कल नबाव, यशवंत सिंह व सरोजिनी अग्रवाल विधान परिषद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गये थे।

5. सीताराम पांचाल कौन थे?

सीताराम पांचाल बॉलीवुड अभिनेता थे। इन्होंने पान सिंह तोमर, पीपली लाइव, लज्जा, हल्ला बोल, जॉली एलएलबी 2, बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों में काम किया है। इन्हें हरियाणवी फिल्म लाडो में बेहतरीन अभिनय के लिए नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है।

6. महेश्वरी चौहान का संबंध किस खेल से है?

महेश्वरी चौहान का संबंध निशानेबाजी से है। हाल ही में महेश्वरी चौहान ने अस्ताना, कजाखस्तान में आयोजित एशियन शॉट गन निशानेबाजी में दो पदक जीते हैं। स्कीट की व्यक्तिगत स्पर्धा में उन्होंने कांस्य और टीम इवेंट में रजत पदक जीता था। महेश्वरी स्कीट में 2009 के बाद अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली देश के पहली निशानेबाज हैं।

7. केएल राहुल का संबंध किस खेल से है?

केएल राहुल का संबंध क्रिकेट से है। राहुल भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। हाल ही में केएल राहुल ने विश्वनाथ और द्रविड़ का लगातार 6 फिफ्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केएल राहुल ऐसा करने वाले देश के पहले तथा विश्व के छठे बैट्समैन बन गए हैं। इन्होंने 90, 51, 67, 60, 51\*, 57, 85 रन की पारियां खेली हैं।

8. हाल ही में “हिंदू नाटककार पुरस्कार” से किसे सम्मानित किया गया है?

“हिंदू नाटककार पुरस्कार” से गिरीश खेमनी और अक्षत निगम को सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार उनके नाटक ‘इन सर्च ऑफ़ दरिया सागर’ के लिए दिया गया है।

9. हाल ही में किस देश की सेनाओं के बीच “इंद्र” नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है?

भारत और रूस की सेनाओं के बीच “इंद्र” नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। यह सैन्य अभ्यास रूस की पहाड़ी व्लादिवोस्तोक क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में पहली बार भारत की तीनों शाखाएं थलसेना, नौसेना और वायुसेना भाग ले रही हैं। इसका लक्ष्य दोनों देशों की सेनाओं के तीनों शाखाओं के बीच समन्वय हासिल करना है।

10. दक्षिण अफ्रीका पर ओलंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंध कब लगाया गया था?

दक्षिण अफ्रीका पर ओलंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंध 12 अगस्त 1964 में लगाया गया था। द. अफ्रीका पर यह प्रतिबंध वहां लागू रंगभेद नीति के कारण लगाया गया था। इसके तहत वहां के स्थानीय और अश्वेत नागरिकों पर मताधिकार से लेकर कई तरह के भेदभाव वाले नियम लागू थे। दक्षिणअफ्रीका द्वारा रंगभेद नीति खत्म करने के बाद आईओसी ने 1990 में प्रतिबंध हटा दिया था।